

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

- Please check that this question paper contains **5** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **14** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

## BHUTIA

*Time allowed : 3 hours*

*Maximum Marks : 100*

The Question Paper will be divided into **four** sections :

Section A : Applied Grammar	25 Marks
Section B : Reading Comprehension (Unseen Passage)	10 Marks
Section C : Composition	
(i) Essay Writing	08 Marks
(ii) Letter Writing	07 Marks
Section D : Literature (Prose)	50 Marks

ཕྱི་ཚེན་ ཀ་ སྐུམ་རྟུགས་ལས་

༡ འོག་གི་ གྲི་བ་ཕྱི་ལས་ གང་ཅུང་ ལྟ་ལོ་ ལན་ བྱི་ ཨང་ ༡༥

ག་ སྐུམ་བཟུ་ལོ་ བྱད་ ག་ཚོད་ ཡོད་ གན་གན་ ཡིན་ དཔེར་བརྗོད་ བཅས་ བྱི།

ཁ་ མིང་ཚབ་ ལཔ་ན་ གན་ ཡིན་ དཔེར་བརྗོད་ དང་ བཅས་ལོ་ བྱི།

ག་ བྱུན་སྐྱད་ཀྱི་ བྱད་ ག་ཚོད་ ཡོད་ གན་གན་ ཡིན་ དཔེར་བརྗོད་ བཅས་ བྱི།

ང་ འབྱུང་ཁྱུངས་ སྐྱད་བ་ལོ་ བྱད་གསེས་ དབྱེན་ ག་ཚོད་ ཡོད་ དཔེར་བརྗོད་ བཅས་ བྱི།

ཅ་ རྒྱལ་དབྱེ་ བཟུད་ཀྱི་ བྱུངས་ཁ་ རེ་བཞིན་ མ་ནོར་བ་ བྱི།

ཆ་ རྗེས་འཇུག་ལོ་ མ་བཟུ་བ་ འཇུག་མཁན་ བྱད་ རང་དབང་ཅན་ ག་ཚོད་ ཡོད་ བྱི།

༢ འོག་གི་ གྲི་བ་ཕྱི་ལོ་ ལན་ ལེབ་ལོ་ བྱད་བྱུང་ན་ བྱི་ ཨང་ ༠༥

ག་ རྒྱུ་མཚོ་ལས་ རོར་བུ་ ལཔ་སྐྱབས་ རྒྱལ་དབྱེ་ ག་འདི་ ཡིན་ རོས་འཛིན་ཕྱི་ བྱི།

ཁ་ འབོད་སྐྱ་ མིང་གི་ རྩོན་ལོ་ འཇུག་གམ་ རྗེས་ལོ་ འཇུག་ བསམ་མཐོ་ བཏང་ཕྱི་ བྱི།

ག་ མིང་ལོ་ བྱད་གསེས་ དབྱེན་ ག་ཚོད་ ཡོད་ བྱི།

ང་ རྒྱལ་དབྱེ་ ག་ཚོད་ ཡོད་ མ་ནོར་བསམ་ བཏང་ཕྱི་ བྱི།

ཅ་ བྱུང་ ཡང་ འང་ གསུམ་ ག་འདི་ བྱད་ ཡིན་ནམ་ བྱི།

༣ འོག་གི་ དཔེགས་ལས་ གསུམ་ཀྱི་ ཚིག་སྒྲུབ་ རེ་རེ་ བཟོ་ ཨང་ ༠༥

ག་ ཁ་འབྱུང་བོ། ཁ་ མགོ་ བརྒྱུད་བོ།

ག་ མགོ་ རྒྱར་བོ། ང་ འདྲེ་ འཇུག་གོ།

༤ འོག་གི་ སུལ་སྐྱད་ཕྱི་ ཞེས་ན་ བཟུར་ཕྱི་ བྱི་ ཨང་ ༠༥

ག་ མིག་གིས་ བཟུ། ཁ་ རྒྱ་ བདག་མེད་ མ་འབྱུང་།

ག་ མ་ལག་ མ་ལག་ རོགས། ང་ ཨ་ཕ་ ད་ ཉལ་གོ།

ཕྱི་ཚེན་ ཁ་ འབྲེང་འབེབས་ལས་

༥ འོག་གི་ འབྲེང་འབེབས་ རྒྱོགས་ཕྱི་ གྲི་བ་ཕྱི་ལོ་ ལན་ བྱི་ ཨང་ ༡༠

# ཤིང་ བཅུགས།

ཤིང་ནགས་ ང་ཅག་ བམས་ཅག་གི་ རོན་ལོ་ གྲོག་ ཡིན། ཤིང་ནགས་ མེད་ན་ ལུང་པོ་ན་ རྩ་  
ཁོམ་ཤད་ ཡིན། ཤིང་ནགས་ མེད་སར་ རྩ་རྩད་ ཆད་ཤད་ ཡིན། ཤིང་ནགས་ མེད་ན་ གྲོག་ཆགས་  
སེམས་ཅན་རྩ་ རྩད་ས་ མི་ཐོན། ཤིང་ནགས་ ཡོད་ན་ ང་ཅག་གིས་ རྩད་ གཅོང་རྒྱགས་ རྩལ་ ཐོབ་ཤད་  
ཡིན། མི་ཆོད་ ཤིང་ནགས་ ང་ཅའི་ མིག་གི་ རྩལ་ཆ་ དང་ རྩལ་ཆ་ ཡང་ ཡིན།

ཤིང་གི་ ཅ་ལག་ འདྲ་མན་འདྲ་པོ་ བཟོ་དོ་ ཡིན། ང་ཅག་ རྩད་ས་ ལས་ ཡན་ཆད་ དགོས་མཁོ་  
ཡོད་ཆད་ ཤིང་ལས་ བཟོ་དོ་ ཡིན། ང་ཅག་ མི་རིགས་ ཡོད་ཆད་ དང་ གྲོག་ཆགས་ དྲུང་འགྲོའི་ རིགས་  
ཡོད་ཆད་ ཤིང་ དང་ རྩ་རིགས་ མེད་ན་ རྩད་ མི་རྩུགས། ང་ཅག་ རྩེ་པོ་ལས་ ཤི་ཤི་ཟད་ ཤིང་ནགས་  
དང་ རྩ་རིགས་ མེད་པའི་ མེད་ཐབས་ མེད།

ང་ཅག་གིས་ མ་རྩོད་ ཡོད་ས་ ཤིང་གི་ ལུང་མ་རྩ་ བཅུགས་ དགོས། བཅུགས་ བཅུགས་གོའི་ ཤིང་  
ལུང་མ་ཅའི་ ཅ་ག་ རྩལ་ས་ དགོས། ཤིང་རྩོད་ གཅིག་ བཅད་པའི་ ཉེས་དམིགས་ མི་ གཅིག་ བསད་པའི་  
ཉེས་དམིགས་ དང་ དབྱེར་ མེད་ ཡིན། ཞི་འདིས་ ཡིན་ཅང་ ང་ཅག་གིས་ ཤིང་ བཅད་ མི་ལགས།

- ག་ ཤིང་ ང་ཅག་རྩའི་ གན་ ཡིན་ནམ་ གྱི།
- ཁ་ ཤིང་ གཅིག་ བཅད་པའི་ ཉེས་དམིགས་ གན་ དང་ དབྱེར་མེད་ ཡིན་ནམ་ གྱི།
- ག་ ཤིང་ནགས་ལས་ ང་ཅག་གིས་ གན་ ཐོབ་རྩུགས་ཀམ་ གྱི།
- ང་ ཤིང་ནགས་ མེད་ས་ གན་གན་ ཐོན་པའི་ ཉེན་ལ་ ཡོད་ གྱི།
- ཅ་ མ་རྩོད་ ཡོད་ས་ གན་ བཅུགས་ དགོས་ཀམ་ གྱི།

སྒྲུ་ཆོན་ ག་ བྱི་རྩོམ་ དང་ བཏང་ཡིག་

༦ འོག་གི་ འགོ་བརྗོད་ལས་ གཅིག་ལོ་ བྱི་རྩོམ་ ཚིག་ ༡༡༠ གྱི་ ཡུང་ ༠༡

ག་ རང་ལུལ་ ཡར་རྒྱས་ བཏང་པའི་ རོན་ལོ་ ང་ཅག་གིས་ གན་ གནང་ དགོས་པའི་ སྒྲུ་ གྱི།

ཡང་།

ཁ་ རི་དྲགས་ སེམས་ཅན་ ལུལ་གྱི་ རྩལ་ཆ་ ཡིན་པའི་ སྒྲུ་ལོ་ གྱི།

༧ འོག་གི་ འགོ་བརྗོད་ གཅིག་ལོ་ ཡིག་ གཅིག་ གྱི་ ཡུང་ ༠༢

ག་ ཡར་ལས་ ལེ་ལག་གོའི་ དུལ་འཛིན་ལོ་ རྩད་ལམ་ བཟོ་པའི་ རོན་ལོ་ རྩུ་ཡིག་ གྱི།

ཡང་ན་

ཁ་ རྩུ་པ་སྤྱི་ མཆོག་ལོ་ ཉིན་ གཉིས་ཀྱི་ དགོངས་ཁུས་ ཡིག་ གཅིག་ གྱི།

སྒྲུ་ཆོན་ ང་ ཚིག་ལུག་ ཚིགས་བཅད་ དང་ འགོ་བ་ བཟང་མའི་ རྩམ་ཐང་།

༤ འོག་གི་ ཚིག་ལྷན་གི་ གྲི་བ་ཚུ་ལས་ གང་རུང་ གསུམ་གྱི་ ལན་ བྱི། ཨང་ ༡༥  
 ཀ་ ཚིག་ལྷན་ ཁྱི་སྒྲིང་ རྟེན་བཅན་གྱིས་ བོ་ཙོ་ བ་གཞིན་ དབང་པོ་ རྟོན་མེད་ རིག་ཅན་ཚུ་ལོ་ རྒྱ་གར་  
 ལོ་ བཏང་མེད་ རྒྱམ་མཁན་ ཡོད་ན་ ཁས་ལེན་ བྱས་དགོས་པའི་ རྩལ་བསྐྱལ་ གནང་སྐབས་ མི་  
 ཚོ་གསུམ་ རྒྱ་ལས་ བོ་རོ་ཚུ་ན་ བཞངས་མྱི་ རྒྱལ་པོ་ལོ་ བྱལ་ རྩལ་བཞིན་ གན་ རྩལ་འི་ རྟོར་ བྱི།  
 ཁ་ རིག་སྐབས་ མགོན་པོ་ རྒྱ་མཁན་གྱི་ མཚན་ རེ་བཞིན་ མཐོར་བ་ བྱི།  
 ག་ ཁྱི་སྒྲིང་ རྟེན་བཅན་གྱིས་ རུ་རུང་ ལོ་ན་ བརྒྱད་ ཟེན་པོ་ གཅིག་ རྟོན་དཔོན་ ཚེན་པོའི་ རྒྱ་མདུན་  
 ལོ་ འཁྲིགས་ བཅར་དུས་ རྟོན་དཔོན་གྱིས་ རུ་རུང་ལོ་ གཟིགས་མྱི་ གན་ གསུང་པའི་ རྟོར་ བྱི།  
 ད་ རྒྱ་འཁྲུང་ ལོ་ཚེན་ བོ་རོ་ཚུ་ན་ལོ་ ལོ་ཚུ་ རྟོན་པ་ལོ་ གན་ བཏང་པོ་ ཡིན་ནམ་ བྱི།

༥ འོག་གི་ གྲི་བ་ཚུ་འི་ ལན་ ལེབ་པོ་ རུང་རུང་ན་ བྱི། ཨང་ ༠༥  
 ཀ་ ཁྱི་སྒྲིང་ རྟེན་བཅན་གྱིས་ ཀ་ལོ་ དམ་ཚེས་ རྟོན་པ་ རྒྱ་གར་ལོ་ བཏང་པོ་ ཡིན་ནམ་ བྱི།  
 ཁ་ བདེན་པོ་ གསུམ་ ལལ་བ་ གན་གན་ ཡིན་ནམ་ བྱི།  
 ག་ སངས་རྒྱལ་ལོ་ རྟོན་པ་ལྷ་ སོང་ན་ བྱི་རོལ་པའི་ ལྷ་ལོ་ རྟོན་པ་ལྷ་ འཛིན་རུང་གམ་ མི་རུང་ བྱི།  
 ད་ ཚིག་ལོ་ རྟོན་པ་ལྷ་ སོང་ན་ གན་ རྟོན་པ་དགོས་ བྱི།  
 ཅ་ དགོ་འདུན་ལོ་ རྟོན་པ་ལྷ་ སོང་ན་ གན་ དང་ བོགས་ མི་རུང་ བྱི།

༡༠ འོག་གི་ ཚིག་སྐབས་ལྷན་གྱི་ འགེལ་བཤད་ དཔེ་དོན་ བཅས་ བྱི། ཨང་ ༠༥  
 ཀ་ མཁས་པོ་ ཚུད་མྱི་ མན་དྲི་ན།  
     ཨོ་འདྲིའི་ བར་པོ་ གཏྲིང་ མི་དཔོགས།  
     ར་ལོ་ འཕྲིག་ཀས་ མན་བརྒྱུད་ན།  
     དེ་སྒྲིང་ གཞན་ དང་ རྩད་ གན་ ཡོད།

༡༡ འོག་གི་ ཚིག་སྐབས་ལྷན་ ཡར་འོག་ རྟོར་ ཡོད་ བཅོས་མྱི་ བྱི། ཨང་ ༠༥  
 རང་གཞན་ ཀ་ལོ་ མ་ཕན་པའི།  
     མཁོ་མེད་ ཐང་ལལ་ ཀུན་གྱིས་ རྟོངས།  
     རུ་མེད་ ས་གཞི་ རྒྱ་ཆེ་ཡང་།  
     རྟོར་འདྲི་ མེད་པོ་ ཉིད་དང་ མཚུངས།

༡༩ འོག་གི་ ས་རྒྱུ་ཕྱིན་ རྩེད་གི་ ཚིག་ཕྱི་ གསེས་མི་ སྐད་  
ཁུ་བའི། ཡོན་ཏན། ཐམས་ཅད། རིན་ཆེན།

ཨང་ ༠༧

ག་ མཐས་པོ་.....མཛོད་ འཛིན་པོ།  
ཁ་ ཉེད་ག་ ལེགས་བཤད་.....སྟུང་།  
ག་ ལྷུ་མཚོ་ ལྷོ་མ་པོ་.....གཏོར་།  
ང་ ཞིན་ཕྱིར་ ལུ་པོ་.....འབབ།

འགྲོ་བ་ བཟང་མོའི་ རྣམ་ཐར་ལས་

༡༩ འགྲོ་བ་ བཟང་མོའི་ རྣམ་ཐར་ལས་ གང་རུང་ བཞི་གི་ ལན་ བྱི་

ཨང་ ༡༩

ག་ འགྲོ་བ་ བཟང་མོའི་ ཁོག་གོའི་ བྱིས་པོ་གིས་ ལྷ་པོ་གསུམ་ རྗེས་ལོ་ གན་ གསུང་པོ་ བྱི།  
ཁ་ ཐབས་ཤེས་ གན་ བཏང་སྟེ་ བདུད་མོ་ ཉེད་མས་ གྲུ་ལ་དབང་པོ་ལོ་ བཙོན་ལོ་ བཅུག་གོ་ བྱི།  
ག་ ལྷུ་པོ་ གྲུ་ལ་དབང་པོས་ ལྷོན་འབངས་ཕྱི་ལོ་ ས་ འདེལ་བ་ལོ་ འགྲུ་དགོས་སེ་ གསུང་བའི་ ལན་  
ལོ་ ལྷོན་པོ་ ཉིན་འཛིན་གྱིས་ གན་ ལུ་པོ་ ཞིན་ནམ་ བྱི།  
ང་ འགྲོ་བ་ བཟང་མོ་ འཁྱུངས་ལོང་ མེད་པོ་ ཡབ་ཡུམ་ གཉིས་པོ་ལོ་ གན་ གསུང་པོ་ ཞིན་ བྱི།  
ཅ་ འགྲོ་བ་ བཟང་མོ་ གྲུ་ལ་དབང་པོའི་ པོ་བྱང་ན་ ཕྱིན་སྟེ་ ལྷུ་པོ་ལོ་ གན་ ལུ་པོ་ ཞིན་ནམ་ བྱི།

༡༩ འོག་གི་ ཉི་པ་ཕྱི་ལོ་ ལན་ ལེབ་པོ་ བྱང་བྱང་ན་ བྱི་

ཨང་ ༠༩

ག་ ལྷུ་ ལྷུ་མཛིན་ གཉིས་པོ་ལོ་ གསུན་པའི་ ལག་ཀ་ལོ་ ཀ་གིས་ བཏང་པོ་ ཞིན་ནམ་ བྱི།  
ཁ་ ཉི་པོ་ཕྱི་གིས་ ལྷུ་ ལྷུ་མཛིན་ གཉིས་པོ་ལོ་ བསད་པོ་ ཞིན་ནམ་ ཚོ་ཐར་ བཏང་པོ་ ཞིན་ བྱི།  
ག་ འགྲོ་བ་ བཟང་མོའི་ རྣམ་ཐར་ འདི་ན་ ལྷོ་མས་སྟེ་ ལེའུ་ ག་ཚོད་ ཡོད་ བྱི།